



कोरोना महामारी रोकथाम अभियान



50, Arpit Nagar, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.) - 302021

वर्ष 2020 पूरी दुनिया पर एक ऐसी महामारी का संकट लेकर आया जिसके कारण पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए लाखों की जानें गयीं। सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर गयी। करोड़ों की नौकरियाँ गयीं, महीनो तक फैक्ट्रीज, मॉल, दुकानें बंद रही। मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गाँवों के लिए निकल गए। इन सब अव्यवस्थाओं के बीच हेल्प इंडिया ने आगे बढ़कर सामाजिक जिम्मेदारियों को समझा और संकट के इस समय में आगे बढ़कर लोगों की हरसंभव सहायता की।

कोरोना संकट के समय पीड़ित लोगों की मदद के लिए हेल्प इंडिया ने पोर्टल द्वारा अपील की और लोगों को मदद के लिए प्रेरित किया। इस अपील के असर से बड़ी संख्या में लोग आगे आये और उन्होंने सामान देकर और आर्थिक सहायता प्रदान की। इस कार्य में महिलाओं ने आगे आकर बड़ी जिम्मेदारी निभाई और घर से ही लाखों की संख्या में मास्क बनाकर भेजे और साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन बनाया। इन मास्क और भोजन को हेल्प इंडिया के सदस्यों ने घर घर जाकर वितरण किया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों, पुलिस चौकियों पर सेनेटाइजेशन करवाया गया। संस्थान के द्वारा मुख्य मुख्य सेनेटाइजेशन मशीन का भी वितरण किया गया।

क्रमांक	कार्य	संख्या
1	राज्यों में कार्य	14
2	मास्क वितरित किये गए	6,22,000
3	राशन पैकेट वितरण	18640
4	भोजन पैकेट वितरण	4,78,560
5	सैनेटाइजेशन	920
6	सैनेटाइजेशन मशीन वितरण	56
7	नकद सहायता	3,47,600
8	काढ़ा वितरण	14,100

कोरोना काल में हेल्प इंडिया द्वारा कई तरह के राहत कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हम आशा करते हैं की हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के सदस्य आगे भी इसी तरह सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सबसे आगे रहेंगे।

एमएफए डॉ पवन पारीक
राष्ट्रीय महामंत्री